



रामाज्ञा स्कूल, नॉएडा
कक्षा-छ/विषय-हिंदी /२०१७-१८
ओलिंपियाड अभ्यासपत्र

प्र० .निम्नलिखितगद्यांशकोपढ़करनीचेदिएगएप्रश्नोंकेउत्तरदीजिए।

धन खो जाने से विशेष हानि नहीं होती। स्वास्थ्य खो जाने से कुछ हानि होती है लेकिन यदि चरित्र खो जाए तो समझो कि सब कुछ खो गया। सच्ची बात तो यह है कि मनुष्य को जितनी भी चीज़ें मिली हैं चरित्र सबसे मूल्यवान है। जिसके पास चरित्र है वह समाज का श्रृंगार है, विभूति है। जिसके पास चरित्र होता है आत्मत्याग की भावना पायी जाती है। वह प्रतिदिन छोटी-छोटी बातों में दूसरों की असुविधा का ध्यान रखता है। भीड़-भाड़ होने पर भी दूसरों को धक्का नहीं देता। यदि धक्का लग भी जाता है क्षमा मांग लेता है।

1.) किसके खो जाने से विशेष हानि नहीं होती ?

(क) धन (ख) मन (ग) चरित्र (घ) मित्र

2.) किसके खो जाने से कुछ की हानि होती है ?

(क) धन (ख) मन (ग) स्वास्थ्य (घ) मित्र

3.) किसके खो जाने से सब कुछ खो जाता है ?

(क) धन (ख) मन (ग) स्वास्थ्य (घ) चरित्र

4.) जिसके पास चरित्र होता है –

(क) उसमें त्याग की बात नहीं होती (ख) उसमें सबके प्रति प्यार की भावना होती है
(ग) आत्म त्याग की भावना होती है (घ) उपरोक्त सभी

5.) व्यक्ति को कैसा होना चाहिए ?

(क) चरित्रवान (ख) धनवान (ग) पहलवान (घ) सत्यवान

6.) “ दाल में काला होना ” लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है ?

(क) सही बात (ख) संदेह होना (ग) शिकायत करना (घ) इनमें से कोई नहीं

7.) निम्न वर्गों में से स्वर कौन-सा है ?

(क) अ (ख) क (ग) च (घ) घ

8.) सेना कौन सी संज्ञा हैं –

(क) भाववाचक संज्ञा (ख) द्रव्यवाचक संज्ञा
(ग) समूहवाचक संज्ञा (घ) इनमें से कोई नहीं

9.) क्रिया के मूल रूप का कहते हैं ?

(क) क्रिया (ख) धातु (ग) कर्ता (घ) कर्म

10.) जो बूढ़ा ना हो-

(क) अजर (ख) अमर (ग) दिवंगत (घ) उपरोक्त सभी

11.) दुर्बल में उपसर्ग है -

(क) दुर (ख) बल (ग) ल (घ) दुब

12.) 'अमृत' शब्द का विलोम क्या होगा ?

(क) जीवित (ख) विष (ग) मृत्यु (घ) पय

13.) जिसका आचरण अच्छा हो-

(क) व्यवहारी (ख) दुराचारी (ग) सदाचारी (घ) न्यारी

14.) 'जेठ' शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा ?

(क) जेठानी (ख) जेठी (ग) जेठरानी (घ) जेठाइन

15.) "उसने पढ़ लिया होगा" किस प्रकार का वाक्य है ?

(क) संदेहवाचक (ख) इच्छावाचक (ग) निषेधवाचक (घ) संकेतवाचक

16.) "आँखों का तारा होना" मुहावरे का क्या अर्थ होगा ?

(क) अत्यधिक प्रिय (ख) हृदय दुलारा (ग) लाडला (घ) मेरा चाँद

17.) निम्न में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए-

(क) ऋत् (ख) ऋतु (ग) रितु (घ) रितू

18.) "बहन के पति को क्या कहते हैं ?

(क) साला (ख) दामाद (ग) बहनोई (घ) भतीजा

19.) "काल" कितने प्रकार के होते हैं ?

(क) तीन (ख) पांच (ग) चार (घ) सात

20.) आपको मम्मी बुला -----हैं।

(क) रहा (ख) रहे (ग) रही (घ) रहो